



- अपने जीवन को तेज दिमाग,
 मजबूत शरीर और स्वस्थ
 आत्मा के साथ जीएं
 - हम लाएं हैं ऊर्जा से भरपूर जीवन जीने की कुंजी जो आपके स्वास्थ्य में काफी स्धार करेगी
- > अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाएं और अब तक के सबसे स्वास्थ्यप्रद बनें
 - > अपनी युवा ऊर्जा बढ़ाएं और अपने स्वास्थ्य को वापस पाएं

















मधुमेह:

कई शुरुआती अध्ययनों से पता चलता है कि मोरिंगा में पाए जाने वाले इंसुलिन जैसे प्रोटीन रक्त शर्करा को कम करने में मदद कर सकते हैं



केंसर:

प्रयोगशाला परीक्षणों में, पत्ती के अर्क ने अग्नाशयी (पैंक्रीआटिक) कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा कर दिया और कीमोथेरेपी को बेहतर ढंग से काम करने में मदद की



स्मृति:

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एंटीऑक्सिडेंट और अन्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले संयंत्र रसायन मस्तिष्क में तनाव और सूजन को ठीक कर सकते हैं









रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है

प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला



सूजन से लड़ता है




याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाता है





कोलेस्ट्रॉल कम कर सकता है



मोरिंगा में कैल्शियम और फॉस्फोरस भी होते हैं, जो हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद करते हैं

मोरिंगा अर्क कुछ पेट की बीमारियों का इलाज करने में मदद कर सकता है, जैसे कि कब्ज, गैस्ट्रेटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस।

मोरिंगा को अवसाद, चिंता और थकान के इलाज में मदद करने के लिए माना जाता है

इसमें आंखों की रोशनी में सुधार करने वाले गुण होते हैं जो इसके उच्च एंटीऑक्सीडेंट स्तरों के कारण हैं।

- समय की पकड़ से जीवन को बचाओ और अपनी युवा शक्ति को फिर से जगाओ
- बीमारी से अपने शरीर को बचाएँ और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें
- अर्जा, जीवन शक्ति, और शक्ति के हर पल को जीएं
- दीर्घायु के लिए समय और उम्र को हराएं





इसका उपयोग कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को कम करने के लिए किया जा सकता है



यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है



यह हर्बल है और बिना किसी दुष्प्रभाव के एक प्राकृतिक पूरक है







मोरिंगा अर्क कछ पेट की बीमारियों, जैसे कब्ज. गैस्ट्रेटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस के इलाज में मदद कर सकता है। मोरिंगा के एंटीबायोटिक और जीवाणरोधी गण विभिन्न रोगजनको के विकास को रोकने में मदद कर सकते हैं, और इसकी उच्च विटामिन बी सामग्री पाचन में मदद करती है



मोरिंगा कैप्सूल प्रोटीन, विटामिन बी 6, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन और आयरन सहित कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं



मोरिंगा ओलीफरा

पोषण सामग्री



केले से तीन गुना अधिक **पोटेशियम**



पालक से पच्चीस गुना अधिक **आयरन**

Nourish Your Healthy Li

KEVA

120 CAPSULE



दूध से चार गुना अधिक **केल्शियम**



अंडे से छत्तीस गुना अधिक मैग्नीशियम



संतरे से सात गुना अधिक विटामिन सी



50x

केले से पचास गुना अधिक विटामिन बी 2



मूंगफली से पचास गुना अधिक विटामिन बी 3



दूध / दही से दो गुना अधिक प्रोटीन



मोरिंगा ओलीफरा



विटामिन (अल्फा और बीटा कैरोटीन), बी, बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 12, सी, डी, ई, के, फोलिक एसिड, बायोटिन एवं और भी

मिनरल्स

कैल्शियम, क्लोराइड, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोरीन, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सेलेनियम, सल्फर, जिंक

फाइटोकेमिकल्स -



8 आवश्यक अमीनो एसिड

आइसोलिउसीन, लिउसीन, लिसिन, मेथिओनीन, फेनीलालनीन, थ्रेओनीन, ट्रीप्टोफन, वालीन

50 एंटी ऑक्सीडेंट


Orac value of 157,600 µmol TE/100g

42 एंटी इंफ्लेमेटरी कम्पाउंड्स





Moringa Oleifera



Oxygen Radiance Absorption Capacity Test

कीवा मोरिंगा प्लस कैप्सूल में मौजूद हैं



मोरिंगा (मोरिंगा ओलीफेरा) Lf.100mg

मेथी (ट्राइगोनेला फेनम ग्रैकम) Sd.60mg

शेवल (सेराटोफायलम डरमेरसम) PI40mgl

आंवला (फायलनथस एमब्लिका) Fr.P40mg

डैडीम (प्निका ग्रेनटम) Fr.30mg

हल्दी 30mg

काली मिर्च 10mg

शतला का अर्क (ओर्गानम वल्गारे) Lf.100mg

शिलाजीत (Bh.Pr.)40mg

रोजमेरी (रोसमरीन्स ऑफिसिनलिस) Lf.30mg



खराक

- गर्म पानी के साथ 4-6 कैप्सूल खाली पेट लें या चिकित्सक अनुसार लें
 धूप से दूर, ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें
- फ्रिज में ना रखें





- Web: www.kevaind.org
- Email: support@kevaindia.org
- Customer Care: 0161-6607000





